



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
P ART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 1979/भाद्र 2, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 1979/BHADRA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वि इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

अधिसूचनायें

नई दिल्ली 23 अगस्त, 1979

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 54 ई० एल० (19)/79 :—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशन, 1964 के रैगुलेशन 101 के अनुसरण में इन्सटिट्यूट की कौंसिल के लिए चुने गए इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के सदस्यों के नाम सामान्य सूचना के लिए एनडू द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :—

जुनाब क्षेत्र सं०-1

(गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा संघीय क्षेत्र गोवा, दमन और दीव तथा दावरा और नागर हवेली)

1. श्री इन्दर चन्व जैन
2. ,, बन्सीधर सुन्दरलाल मेहता
3. ,, येज्जी हीरजी मालेगम
4. ,, पुल्लिकल अच्युधन नायर
5. ,, प्रवयुमन नटवरलाल शाह
6. ,, बिषेक गणेश डाडे
7. ,, नरेन्द्र पनसुखलाल सारदा
8. ,, हरिप्रसाद बडिसाल वासा

जुनाब क्षेत्र संख्या-2

(मान्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तामिलनाडु और संघीय क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षद्वीप और अमिनद्वीव द्वीप)

1. श्री अशोक कुम्भट
2. ,, पी० टी० सम्पत कुमारन
3. ,, बी० जगदीशान
4. ,, गोपालकृष्ण नारायणास्वामी
5. ,, एस० प्रभाकरन
6. ,, देवीनेनी सीतारामैया

जुनाब क्षेत्र संख्या-3

(छासाम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य तथा संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप)

1. श्री अमल कुमार चक्रवर्ती
2. ,, जयसिंह सिंधी
3. ,, सन्तोष कुमार दास गुप्ता
4. ,, अमल चन्द्र चक्रवर्ती

जुनाब क्षेत्र सं०-4

(उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान)

1. डा० रमेश चन्द्र वैश
2. श्री राजेन्द्र कुमार सेठ

संघीय क्षेत्र सं०-5

(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब राज्य तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़)

1. श्री सी० राजारामन
2. „ प्रथ्वी राज खन्ना
3. „ निर्मल कुमार जैन
4. „ किशन गोपाल सोमानी

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August, 1979

(Chartered Accountants)

No. 54-EL (19)/79. —In pursuance of Regulation 101 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the names of members of the Institute of Chartered Accountants of India who have been declared elected to the Council of the Institute are hereby published for general information :

CONSTITUENCY NO. 1

(The States of Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra & Nagar Haveli)

1. Shri Inder Chand Jain
2. Shri Bansidhar Sunderlal Mehta
3. Shri Yezdi Hirji Malegam
4. Shri Pulikkal Achuthan Nair
5. Shri Pradyumna Natvarlal Shah
6. Shri Vivek Gopesh Dadhe
7. Shri Narendra Pansukhlal Sarda
8. Shri Hariprasad Vadilal Vasa

CONSTITUENCY NO. 2

(The States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and The Union Territories of Pondicherry and The Lacadive, Minicoy and Amindivi Islands)

1. Shri Ashok Kumbhat
2. Shri P. T. Sampath Kumaran
3. Shri V. Jagadisan
4. Shri Gopalakrishna Narayanaswamy
5. Shri S. Prabhakaran
6. Shri Devineni Seetharamaiah

CONSTITUENCY NO. 3

(The States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and the Andaman and Nicobar Islands)

1. Shri Amal Kumar Chakraborty
2. Shri Jai Singh Singhi
3. Shri Santosh Kumar Das Gupta
4. Shri Amal Chandra Chakrabortti

CONSTITUENCY NO. 4

(The States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan)

- श्री. Ramesh Chandra Vaish
श्री. Rajendra Kumar Seth

CONSTITUENCY NO. 5

(The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh).

1. Shri V. Rajaraman
2. Shri Prithvi Raj Khanna
3. Shri Nirmal Kumar Jain
4. Shri Kishan Gopal Somani

(चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 54-ई-एल (20)/79 :—चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1964 के रेगुलेशन 112(7) के साथ पठित रेगुलेशन 101 के अनुसरण में “वि कौंसिल आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया” को इन्स्टीट्यूट की विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुने गए इन्स्टीट्यूट के सदस्यों के नाम अधिसूचित करते हुए प्रस्तुत है :—

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद्

(गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा संघीय क्षेत्र गोवा दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली)

1. श्री रामूभाई शंकरलाल पटेल
2. „ रतन नीशीर करोजिया
3. „ विजय राज टाटेर
4. „ विष्णुदास चन्द्रलाल डारक
5. „ राम गणेश खरे
6. „ मुकुन्द मनोहर बिलले
7. „ शशिशेखरन बालकृष्ण पण्डित
8. „ गौतम भाई लाल दोशी
9. „ बाबू राम लाहोरी
10. „ रजनीकांत शांतीलाल चौकशी
11. „ बिलोप महेन्द्र भाई शाह
12. „ सुधाकर नारायण कुलकर्णी
13. „ शांतीलाल जमनाकास शाह
14. „ ओम प्रकाश कानूनगो
15. „ नवलाल हनुमानदास भट्ट
16. „ दीपचन्द उत्तम चन्द जैन

दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद्

(आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघीय क्षेत्र पांडिचेरी और लाकादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीप)

1. श्री एन० भागवती पिल्लै
2. „ यशवन्त मिह आगीलया
3. „ श्री एम० जी० रामचन्द्रन
4. „ सी० श्री वत्सन्
5. „ जोम पोदीकरन
6. „ शंकर सुब्रामण्य
7. „ अल्लादी रामाब्रह्म
8. „ उमा महेश्वरा शास्त्री कीरुलूरी
9. „ एन० संपिरामूर्ति
10. „ के० रामास्वामी
11. „ अडका राधावेश राव
12. „ एम० एन० रंगामणि

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद्

(आसाम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा तथा संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और प्रण्डेमान निकोबार द्वीप)

- 1 श्री दीपाकर चैटर्जी
- 2 „ शिखर बन्धोपाध्याय
- 3 „ रविन्द्र नाथ भाकुड़ी
- 4 „ अभिजीत घोष
- 5 „ मनिन्द्र नाथ गंगुली
- 6 „ अमरेन्द्र नाथ दास
- 7 „ रञ्जन कुमार राय चौधरी
- 8 „ गमुशील कुमार रंगता
- 9 श्री रामानन्द रस्तोगी

मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद्

(उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, और राजस्थान)

- 1 श्री राम रतन जैन
- 2 „ सुरेन्द्र सिंह भण्डारी
- 3 „ अश्वनी कुमार गुप्ता
- 4 „ धनञ्जय जयन्तीनाल दावे
- 5 „ चौध मल बिड़ला

उत्तरीय भारत क्षेत्रीय परिषद्

(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब और पंथीय क्षेत्र दिल्ली तथा चण्डीगढ़)

- 1 श्री हरीश गम्भीर
- 2 „ मनोहर लाल टी० हिंगोरानी
- 3 „ विजय धवन
- 4 „ टी० एम० विश्वनाथ
- 5 „ विश्व नाथ नन्दा
- 6 „ गुरिन्दर कुमार बंसल
- 7 „ संतोष कुमार गाडीया

(Chartered Accountant)

No. 54-EL(20)/79.—In pursuance of Regulation 101, read with Regulation 112(7) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the names of the members of the Institute who have been elected to the various Regional Councils of the Institute :

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Gujarat & Maharashtra and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli)

1. Shri Ramubhai Shankarlal Patel
2. Shri Ratan Noshir Karanjia
3. Shri Vijay Raj Tater
4. Shri Vishnudas Chandulal Darak
5. Shri Ram Ganes Khare
6. Shri Mukund Manohar Chitale
7. Shri Sashishekhar Balkrishna Pandit
8. Shri Gautam Bhailal Doshi
9. Shri Balu Ram Lahoti

10. Shri Rajnikant Shantilal Chokshi
11. Shri Dilip Mahendrabhai Shah
12. Shri Sudhakar Narayan Kulkarni
13. Shri Shantilal Jamnadas Shah
14. Shri Om Prakash Kanoongo
15. Shri Nandlal Hanumandas Bhatler
16. Shri Deepchand Uttamchand Jain

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Lacadive, Minicoy and Amindivi Islands)

1. Shri N. Bhagavathi Pillai
2. Shri Yaswant Singh dagliya
3. Shri S. G. Ramachandran
4. Shri C. Srivatsan
5. Shri Jose Pottokaran
6. Shri Sankara Subra Mani
7. Shri Alladi Ramabrahmam
8. Shri Uma Maheswara Sastri Kolluri
9. Shri N. Manthiramurthi
10. Shri K. Ramaswamy
11. Shri Adka Raghavendra Rao
12. Shri M. N. Rangamani

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur & Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands)

1. Shri Dipankar Chatterji
2. Shri Sikhar Bandyopadhyay
3. Shri Rabindra Nath Bhaduri
4. Shri Abhijit Ghosh
5. Shri Manindra Nath Ganguly
6. Shri Amarendra Nath Das
7. Shri Ranjan Kumar Roy Chaudhury
8. Shri Sushil Kumar Rungta
9. Shri Ramanand Rustagi

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan)

1. Shri Ram Ratan Jain
2. Shri Surendra Singh Bhandari
3. Shri Ashwani Kumar Gupta
4. Shri Dhananjay Jayantilal Dave
5. Shri Chouth Mal Birla

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi & Chandigarh)

1. Shri Harish Gambhir
2. Shri Manohar Lal T. Hingorani
3. Shri Vijay Dhawan
4. Shri T.S. Vishwanath
5. Shri Vishwa Nath Nanda
6. Shri Surender Kumar Bansal
7. Shri Santosh Kumar Gadia

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(Chartered Accountants)

सं० 54 ई० एल० (29)/79 :—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1964 के रेगुलेशन 134 के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया को इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की दसवीं क्षेत्रीय परिषद् के संविधान की तिथि के रूप में 16 सितम्बर, 1979 की तिथि नियत करने में प्रसन्नता है।

पी० एम० गोपालाकृष्णन्, सचिव

No. 54-EL (21)/79.—In pursuance of Regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to appoint the 16th day of September, 1979, as the date of the constitution of the Tenth Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India.

P.S. GOPALAKRISHNAN Secy.